


Cloze Passage Worksheet



निर्देश: खाली स्थानों को सही शब्दों से भरें।

1. हमें रोज _____ (फल/चिप्स) और सब्जियाँ खानी चाहिए।
2. _____ (जंक फूड/पौष्टिक भोजन) सेहत के लिए नुकसानदायक होता है।
3. खाना हमेशा _____ (ताजा/बासी) होना चाहिए।
4. हमें _____ (पानी/कोल्ड ड्रिंक) ज्यादा पीना चाहिए।
5. _____ (नाश्ता/रात का खाना) कभी नहीं छोड़ना चाहिए।